



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 अग्रहायण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 792) पटना, बुधवार, 21 दिसम्बर 2011

---

उद्योग विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर 2011

सं0 4 तक विविध-213/2010(छाया)-1687—औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 का अवधि विस्तार (Extension) 31 दिसम्बर, 2011 तक अथवा नई नीति अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए संकल्प सं0 1706, दिनांक 27-12-2010 द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है।

विदित हो नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 संकल्प सं0 691, दिनांक 09-06-2011 के प्रभाव से लागू किया जा चुका है, इस प्रकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 का अवधि विस्तार दिनांक 01-04-2011 से दिनांक 30-06-2011 तक लागू है।

चूँकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 का उपर्युक्त अवधि विस्तार यथा स्थिति में ही की गई है; अतः इस नीति के अंतर्गत कंडिका-2 (xii) AMG/ MMG से छूट एवं कंडिका-2 (ix) विषम परिस्थितियों में कार्यरत इकाइयों को दी जाने वाली सभी प्रोत्साहन सुविधाओं को यथावत् स्थिति में उक्त विस्तारित अवधि अर्थात् दिनांक 01-04-2011 से 30-06-2011 तक के लिए देय होगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी सूचना सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को दी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सी0के0 मिश्रा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 792-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>